



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 605 राँची, सोमवार

18 जून, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

1 जून, 2018 ई०।

संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-II)-3100-- राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय संकल्प संख्या-4669, दिनांक 30 जुलाई, 2015 (प्रति संलग्न) द्वारा लिया गया था ।

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड/वनांचल आंदोलन के आंदोलनकारियों एवं जय प्रकाश नारायण आंदोलन के आंदोलनकारियों को चिन्हित करने निमित्त पुनर्गठित त्रिसदस्यीय आयोग का पत्रांक-246 दिनांक 18 सितम्बर, 2017, पत्रांक-273, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 एवं पत्रांक-312, दिनांक 19 जनवरी, 2018 के माध्यम से प्राप्त तृतीय संपुष्ट सूची, चतुर्थ संपुष्ट सूची एवं पंचम संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना

संख्या-5648, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017, अधिसूचना संख्या-7038, दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 एवं अधिसूचना संख्या-1012, दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. उक्त विभागीय अधिसूचना द्वारा अधिसूचित जय प्रकाश आन्दोलनकारियों का कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-338, दिनांक 18 अप्रैल, 2018 एवं पत्रांक-337, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस चिन्हित आंदोलनकारी को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित जय प्रकाश आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. यह दिनांक 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।
अनु.-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

इग्नातियुस कुल्लू
सरकार के अवर सचिव।
